



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174]
No. 174]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 1982/ आश्विन 9, 1904
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 1982/ASHVINA 9, 1904

इस भाग में छिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 1982

संख्या एक. 8/8/81-एन.एस.—केन्द्रीय राष्ट्रीय बचत सलाह-
कार बोर्ड को 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के लिए पुन-
गठित किया गया है इसके निम्नलिखित सदस्य हैं —

अध्यक्ष

श्री जनार्दन पञ्जारी,
उप-वित्त मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली

सदस्य

- 1 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद ।
- 2 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
गोहाटी, असम ।
- 3 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
बिहार, पटना ।

- 4 अध्यक्ष, दिल्ली अल्प बचत सलाहकार बोर्ड,
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।
- 5 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
गोवा, पणजी ।
- 6 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
गुजरात, अहमदाबाद ।
- 7 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
हरियाणा, बण्डीगढ़ ।
- 8 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
हिमाचल प्रदेश, शिमला ।
- 9 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर ।
- 10 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
कर्नाटक, बंगलूर ।
- 11 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
केरल, त्रिवेन्द्रम ।
- 12 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
मध्य प्रदेश, भोपाल ।
- 13 अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
महाराष्ट्र, बम्बई ।

14. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
मुम्बई, इम्फाल ।
15. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
मेघालय, शिलांग ।
16. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
नागालैण्ड, कोहिमा ।
17. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
उड़ीसा, भुवनेश्वर ।
18. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
पाण्डिचेरी ।
19. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
पंजाब, चण्डीगढ़ ।
20. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
राजस्थान, जयपुर ।
21. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
तमिलनाडु, मद्रास ।
22. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
त्रिपुरा, अगरतला ।
23. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
24. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड,
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता ।
25. वित्त मंत्री, सिविकम, गंगटोक ।
26. श्री मोहम्मद असरार अहमद, सदस्य लोक सभा ।
27. श्री ग्धीर कुमार गिरि, सदस्य लोक सभा ।
28. श्रीमती माधुरी सिंह, सदस्य लोक सभा ।
29. श्री धर्मवीर सिंह, सदस्य लोक सभा ।
30. श्री यशवन्त राव मोहिते, सदस्य लोक सभा ।
31. श्री लासन सिंह, सदस्य राज्य सभा ।
32. श्री बिजेन्द्र पाल सिंह, सदस्य लोक सभा ।
33. श्री एन. एन. पांडे, सदस्य राज्य सभा ।

2. बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले कुछ सदस्यों के नाम
शीघ्र ही अधिसूचित किए जाएंगे ।

3. राष्ट्रीय बचत आयुक्त, बोर्ड के सचिव के रूप में
कार्य करेंगे ।

4. बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा :—

- (1) राज्य सलाहकार बोर्डों के क्रियाकलापों का समन्वय
करना और मार्गदर्शन प्रदान करना ;
- (2) देश में राष्ट्रीय बचत आन्दोलन का प्रसार करने के
आवश्यक उपायों और अन्य बचत योजनाओं की
लोकप्रिय बनाने के तरीकों के बारे में सरकार की
सहायता और सलाह देना ।
- (3) राष्ट्रीय बचत आन्दोलन से संबंधित विशिष्ट गंठना-
त्मक और प्रचार विषयक मामलों में सरकार की
सलाह देना ।

अभिलेख चन्द्र तिवारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st October, 1982

No. F. 8/8/81-NS.—The National Savings Central Advisory Board has been reconstituted for the period upto 31st December, 1983 with the following members :

CHAIRMAN

Shri Janardhana Poojary,
Deputy Minister of Finance,
Government of India,
NEW DELHI.

MEMBERS

1. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Andhra Pradesh, Hyderabad
2. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Gauhati, Assam.
3. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Bihar, Patna.
4. Chairman, Delhi Small Savings Advisory Board,
Delhi Administration, Delhi.
5. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Goa, Panaji.
6. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Gujarat, Ahmedabad.
7. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Haryana, Chandigarh.
8. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Himachal Pradesh, Simla.
9. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Jammu & Kashmir, Srinagar.
10. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Karnataka, Bangalore.
11. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Kerala, Trivandrum.
12. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Madhya Pradesh, Bhopal.
13. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Maharashtra, Bombay.
14. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Manipur, Imphal.
15. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Meghalaya, Shillong.
16. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Nagaland, Kohima.
17. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Orissa, Bhubaneswar.
18. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Pondicherry.
19. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Punjab, Chandigarh.
20. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Rajasthan, Jaipur.
21. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Tamil Nadu, Madras.
22. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Tripura, Agartala.
23. Chairman, National Savings State Advisory Board,
Uttar Pradesh, Lucknow.
24. Chairman, National Savings State Advisory Board,
West Bengal, Calcutta.

25. Finance Minister of Sikkim, Gangtok.
26. Shri Mohd. Asrar Ahmed—Member of Lok Sabha.
27. Shri Sudhir Kumar Giri—Member of Lok Sabha.
28. Shrimati Madhuri Singh—Member of Lok Sabha.
29. Shri Dharam Bir Singh—Member of Lok Sabha.
30. Shri Yashwant Rao Mohite—Member of Lok Sabha.
31. Shri Bijendra Pal Singh—Member of Lok Sabha.
32. Shri Lakhan Singh—Member of Rajya Sabha.
33. Shri N. N. Pandey—Member of Rajya Sabha.

2. The names of some other members to be appointed on the board will be notified shortly.

3. The National Savings Commissioner will function as Secretary of the Board.

4. The Board will continue to discharge the following functions :—

- (i) to coordinate and guide the activities of the State Advisory Boards.
- (ii) to assist and advise Government on measures necessary to spread the National Savings Movement in the country and on the ways and means of popularising the small savings schemes ; and
- (iii) to advise the Government on specific organisational and publicity matters relating to National Savings Movement.

A. C. TIWARI, Jt. Secy.

